

एक मंच पर नजर आया मुलायम परिवार

By : Editor Published On : 12 Mar, 2020 12:22 PM IST



इटावा । समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का परिवार इस बार करीब दो साल बाद होली के मौके पर एक मंच पर नजर आया । सपा से अलग होकर अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव व प्रो. रामगोपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो भतीजे अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सपाइयों के संग फूलों की होली खेली ।

सैफई में होली पर अचानक मंच पर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सभी को हैरत में डाल दिया। उन्होंने मंचासीन मुलायम और रामगोपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाचा भतीजे को काफी लंबे अरसे बाद एक साथ एक मंच पर देखकर सपा और प्रसपा कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। जिसके बाद चाचा-भतीजा जिन्दाबाद के नारे लगने लगे। जिसे सुनकर अखिलेश नाखुश नजर आये और उन्होंने तत्काल नारे बन्द करने का आदेश दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि यह नारेबाजी ठीक नहीं है यदि ऐसे नारे लगाएंगे तो मैं अगली बार से होली खेलने नहीं आऊंगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के संग मंच पर मौजूद मुलायम, रामगोपाल, शिवपाल, अखिलेश, धर्मेन्द्र यादव, तेजप्रताप सिंह यादव ने फूलों की होली खेलकर सभी को होली की बधाई दी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कोरोना वाइरस के चलते अपने कार्यक्रम बदल दिए लेकिन सपाईं किसी वाइरस से नहीं डरते। यहाँ उपस्थित भीड़ इस बात की गवाही दे रही है □ PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/एक-मंच-पर-नजर-आया-मुलायम-पर/>